

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री आकाश तोमर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनांक 26.04.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियो पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी ।

अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता रंजीत पुत्र हीरालाल निवासी जगदीशपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 146 / 19 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



उतावलेपन से वाहन चलाकर दुर्घटना करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा उतावलेपन से वाहन चलाकर दुर्घटना में 02 व्यक्तियों की मृत्यु कारित करने के मामले में अभियुक्त नाम पता सुधीर कुमार भोलानाथ निवासी लालपुर सय थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 169 / 19 धारा 279 / 427 / 304 (A) भादवि पंजीकृत किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2547 ने उग्र भीड़ से बचायी अभियुक्त की जान – पीआरवी 2547 को थाना धनघटा क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 2519 से कालर ने ट्रक एवं मोटरसाइकिल दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मृत्यु होने के कारण स्थानीय लोगो द्वारा ट्रक ड्राइवर को जान से मारने की कोशिश करने के सम्बन्ध में सूचना दी। इस सूचना पर पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 04 मिनट में मौके पर पहुंचकर अदम्य साहस का परिचय देते हुए ड्राइवर को उग्र भीड़ से छुड़ाकर अपने कब्जे में लेकर तत्काल थाना बखिरा को सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर उग्र भीड़ से ड्राइवर की जान बचाई गयी, जिसकी मौके पर उपस्थित सम्मानित व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ - आरक्षी संतोष सिंह, हो0 चालक मोहम्मद रफिक।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 07 वाहन चालान व 56 वाहनो से 14500 रु0 सम्मन

शुल्क वसूल

आज दिनांक 26-04-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग का सघन अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 07 वाहन चालान व 56 वाहनो से 14500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

शान्ति भंग मे (151/107/116 सीआरपीसी) 07 अभियुक्त गिरफ्तार –

- 1- कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- 2- महली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- 3 - मेहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- 4 - धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।



एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 26-04-2019 को जनपदीय पुलिस व एन्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 15 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 52 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के लड़कों से पूछताछ करने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।